

GPIL/2025-26
November 11, 2025

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

Scrip Code: 542857

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot no. C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex , Bandra (E),
Mumbai – 400051

Symbol: GREENPANEL

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copies of newspaper publication of unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025

Kindly find enclosed copies of the newspaper publications for the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025 as published on November 11, 2025, in the “Financial Express” (English, all India edition) and “Jan Satta” (Hindi, all India edition).

Kindly take the above on records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **Greenpanel Industries Limited**

Company Secretary & VP – Legal
ACS : 18675

JK Tyre plans to spend ₹5K cr over 5-6 years

● Firm launches embedded smart tyres for PVs

NITIN KUMAR
New Delhi, November 10

JK TYRE & Industries will invest ₹5,000 crore over the next 5-6 years to expand its production capacity, Chairman and Managing Director Raghupati Singhania said on Monday. With this investment, the firm will enhance its capacities for car and truck tyres, along with a stronger focus on exports.

Helped by stable crude prices and continued positive impact of GST, the company expects to see a 6-8% growth in FY26. "With our planned investment, we see the business witnessing 6-8% growth," Singhania said. Headed that the revival of the small car segment would also drive growth for the domestic tyre industry, pushing up overall volumes.

Currently, JK Tyre derives around 14% of its overall revenues from exports. The company exports tyres to around 110 markets globally. With high tariffs in the US impacting business, the firm is focusing on adding new export markets, Singhania said.

At present, it caters to the US market through its plant in Mexico. "The government is working to find some solution through the FTA, but let's see what happens. In



RAGHUPATI SINGHANIA
CHAIRMAN & MD, JK TYRE

With our planned investment, we see the business witnessing 6-8% growth (in FY26)

the meantime, we have altered our strategy and are selling tyres from India to newer markets, including Europe, while supplying the US market from our Mexican plant, which is more duty-friendly," he added.

The firm introduced India's first embedded smart tyres for passenger vehicles. They use technology that continuously monitors critical parameters, delivering real-time, actionable insights that enhance vehicle safety, performance and efficiency.

The embedded smart tyres will be available in the aftermarket through the firm's dealerships, initially in sizes ranging from 14-17 inches. Singhania said the new tyres will be more durable and offer around 5% more range.

Akasa Air eyes more overseas destinations

AKASA AIR WILL plan flights to various overseas destinations, including Singapore, Vietnam and Kazakhstan, as it gets new planes and Boeing aircraft deliveries are expected to be faster, Co-founder and Chief Commercial Officer Praveen Iyer said on Monday.

The airline will also look at the option of starting services to China, he said. "We don't have (bilateral flying) rights for China now, but we will consider them in the future."

The more than three-year-old airline, which is loss-making, currently has a fleet of 30

planes and flies to 24 domestic and six international destinations. It has been facing delays in aircraft deliveries.

At a briefing in the national capital, Iyer said it will very soon start international flights from Delhi and the airline is also looking forward to start services from the upcoming Jewar airport in Uttar Pradesh.

Currently, the airline has 24 daily departures from Delhi. The airline has a firm order for a total of 226 Boeing 737 MAX planes and has been facing aircraft delivery delays. —PTI

TENNECO
TENNECO CLEAN AIR INDIA LIMITED

Passenger Vehicles

#1 AND #2 WITH 52% AND 44% MARKET SHARE IN SHOCK ABSORBERS AND STRUTS, AND ENGINE BEARINGS, RESPECTIVELY

Commercial Trucks

#1 AND #2 WITH 57% AND 34% MARKET SHARE IN CLEAN AIR SOLUTIONS AND ENGINE BEARINGS, RESPECTIVELY

Off-Highway Vehicles

#1 WITH 68% MARKET SHARE IN CLEAN AIR SOLUTIONS

PERFORMANCE ENGINEERED FOR INDIA'S ROADS THE TENNECO WAY

We are part of the Tenneco Group, a U.S. headquartered key global Tier-I automotive component supplier¹. We manufacture highly engineered products—such as Clean Air Solutions, Powertrain Solutions and Advanced Ride Technologies for passenger, commercial and off-highway vehicles. And behind everything we do is **The Tenneco Way**.

ROBUST R&D CAPABILITIES

~5000 active patents and ~7500 active trademarks*

MODULAR & STANDARDISED DESIGN

Highest ROCE amongst peers[^]

FOCUSED OPERATIONAL EFFICIENCIES

Strong financial performance supported by growth and profitability

CUSTOMER STICKINESS

Long-standing Relationship (19.2 Years) with top 10 OEMS[^]

Clean Air Solutions | Powertrain Solutions | Advanced Ride Technologies

¹Source: CRISIL Report | [^]Owned by Tenneco Group worldwide as of June 30, 2025 | [^]We also maintained the highest ROCE and ROE among our peers in Fiscal 2025 | [^]Average length of relationships with our top 10 OEMs as of June 30, 2025

Tenneco Clean Air India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP dated November 05, 2025 with the RoC. The RHP is available on the website of the Company at www.tennecoindia.com, SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the BRLMs, i.e., JM Financial Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, Axis Capital Limited and HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited at www.jmfi.com, www.online.citibank.co.in/html/citigroupglobalscreen1.htm, www.axiscapital.co.in and www.business.hsbc.co.in, respectively and the websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled 'Risk Factors' on page 59 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 'U.S. Securities Act') or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) in the United States only to 'qualified institutional buyers', as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act, in transactions exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act and (ii) outside the United States in 'offshore transactions' as defined in, and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and in accordance with the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

NOTICE
TATA MOTORS LIMITED

Registered Office : 24, Bombay House, Horni Mody Street, Mumbai, Maharashtra - 400 001, Phone: 022 - 66658282

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has / have been lost / misplaced and the holder(s) of the said securities / applicant(s) has / have applied to the Company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

| Name(s) of holder(s) (and Jt. holder(s), if any) | Kind of Securities and face value | No of Securities | Distinctive number(s) |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Asha Prakash | Equity FV - 2 | 1580 | 34503001-34504580 |

Place : Bangalore
Date : 10.11.2025

Asha Prakash
[Name(s) of holder(s)/Applicant(s)]

MY MONEY SECURITIES LIMITED
CIN : L87120DL1992PLC047890
Regd. Office : 11-A, UNDER HILL LANE, CIVIL LINES, DELHI-110054
Email id : mymoneyviews@outlook.com, Website : www.mymoneyviews.com
Contact No. : 011-47087300, 47087455

Subject : Ease of Doing Investment - Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

This is to inform all concerned shareholders that the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has issued its circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/CIR/2025/07 dated July 2, 2025. As per this circular, SEBI has introduced a special window for a period of six months, from July 02, 2025, to January 06, 2026, specifically for re-lodgement of transfer deeds for physical securities that were originally lodged before April 01, 2019, but were rejected/returned/not processed due to deficiencies in the documents/procedure issues, or other reasons.

Key Points:

- Purpose : To enable shareholders to re-submit transfer requests that were previously unprocessed or rejected.
- Eligibility : Applicable only for physical shares transfer requests originally lodged before April 1, 2019 and was rejected due to deficiencies.
- Mode of Transfer : All re-lodged transfer requests will be processed only in dematerialized mode.
- Window period : From July 7, 2025 to January 06, 2026.

How to Re-lodge a Transfer Request:

- Re-lodge all original documents which was returned by RTA with rejection letter after removing all rejections alongwith client master

Important Notes:

- This is a one-time opportunity to regularize pending physical transfer requests.
- Re-lodged requests will be processed only in demat form; no physical transfers will be entertained. Please submit client master with above documents. Please make sure name of demat account should be matched with the name of transferee.
- Incomplete or incorrect submissions are liable to be rejected.

For further details and clarification, please contact:

- The Registrar and Transfer Agent (RTA) of the company i.e MAS Services Limited
- The company's Investor Relations department, and
- Visit the SEBI website at www.sebi.gov.in under the category 'Legal-Circulars'

By Order of the Board
FOR MY MONEY SECURITIES LIMITED

Date : 10.11.2025
Place : Delhi

Vikas Sethi
Managing Director
DIN : 00383194

STYLE BAAZAR

WHERE STYLE MEETS SUCCESS!

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025, were reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Monday November 10, 2025. The Statutory Auditors have issued limited review report with an unmodified opinion on the above results.

The aforesaid results along with the limited review report are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com and the Company at www.stylebaazar.in

The same can also be accessed by scanning the below QR Code.

For and on behalf of Board of Directors
Baazar Style Retail Limited
(formerly known as Baazar Style Retail Private Limited)
Sd/-
Pradeep Kumar Agarwal
Chairman and Whole-Time-Director
DIN: 02195697

Place : Kolkata
Date : November 10, 2025

BAAZAR STYLE RETAIL LIMITED
(formerly known as Baazar Style Retail Private Limited)
CIN : L18109WB2013PLC194160
Regd. Office :DN-52, P S Srijan Tech Park, 12th Floor, Street Number 11, DN Block, Sector V, Salt Lake, North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal, 700091
Telephone : 033 6125 6125; Email : secretarial@stylebaazar.com
Website: www.stylebaazar.in

GREENPANEL
— MDF KA DOOSRA NAAM —
Greenpanel Industries Limited

Registered & Corporate Office: DLF Downtown, Block 3, 1st Floor, DLF Phase 3, Sector 25A, Gurugram - 122002, Haryana, India, Tel No.: +91-124 4784 600
CIN : L20100HR2017PLC127303
E-mail: investor.relations@greenpanel.com, Website: www.greenpanel.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

Based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of Greenpanel Industries Limited ('the Company'), at its meeting held on November 10, 2025 approved the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025. These results have been reviewed by M/s. S. S. Kothari Mehta & Company LLP, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company, in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The aforementioned financial results, along with the limited review report of the Statutory Auditors, are available at <https://www.greenpanel.com/financial-results/> and can also be accessed by scanning the quick response code given below:

Scan the QR Code to view the results on the website of the company

Scan the QR Code to view the results on the website of the BSE

Scan the QR Code to view the results on the website of the NSE

By order of the Board of Directors
For Greenpanel Industries Limited

Shobhan Mittal
Managing Director & CEO
DIN: 00347517
Place: Gurugram
Date: November 10, 2025

In case there are any questions on the above disclosures, please reach out to us at:
investor.relations@greenpanel.com / Tel: +91 -124 478 4600

MDF | Pre-Laminated MDF | Wooden Flooring | Plywood

